

न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ने जबलपुर में ग्राहक समारोह आयोजित किया

जबलपुर और आस-पास के जिलों के 400 से अधिक ग्राहक, ग्राहक समारोह और लकी ड्रा के लिए सम्मिलित हुए

जबलपुर 01 जुलाई 2019

न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ने हाल ही में जबलपुर के होटल समदरिया में ग्राहक समारोह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राज्य भर के 400 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण **3230 4WD** सुपर प्लस+ और **3600 Tx** हेरिटेज एडिशन **2WD** ट्रैक्टर का लॉन्च रहा | न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर के रीजनल ज़ोनल मैनेजर, श्री राजेश धोटे, श्री विशाल पांडे (हेड प्रोडक्ट मार्केटिंग), श्री मृत्युंजय नागर (रीजनल सेल्स मैनेजर-मध्य प्रदेश) और कंपनी के अन्य अधिकारियों ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई।



PRESS RELEASE

3230 Tx सुपर प्लस प्रसिद्ध न्यू हॉलैंड **3230 Nx** का नया संस्करण है, जबकि न्यू हॉलैंड **3600 Tx** हेरिटेज एडिशन प्रतिष्ठित मॉडल **3600** की विरासत के साथ आता है। दोनों ट्रैक्टर अपनी श्रेणी में बेजोड़ पीटीओ हॉर्स पावर प्रदान करते हैं। ट्रैक्टर कई उद्योग-प्रथम सुविधाओं से लैस हैं, जैसे कि एग्री पीटीओ के साथ इंडिपेंडेंट क्लच, स्टेट एक्सल प्लैनेटरी ड्राइव, इम्पोर्टेड वाल्व और लिफ्ट-ओ-मैटिक और सोफटेक क्लच तकनीक के साथ हाई प्रिसिशन हाइड्रोलिक्स। यह **4WD**, फॉरवर्ड-रिवर्स सिंक्रो शटल और ऑक्सिलरी हाइड्रोलिक वाल्व जैसी कुछ वैकल्पिक सुविधाएँ भी प्रदान करता है। ये सभी विशेषताएं दोनों ट्रैक्टरों को अपने सेगमेंट में सभी मौजूदा और उन्नत कृषि अनुप्रयोगों के लिए सबसे अधिक संगत ट्रैक्टर बनाती हैं।

इस अवसर पर श्री राजेश धोटे ने कहा, “न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर किसानों को तकनीकी रूप से सबसे उन्नत कृषि मशीनीकरण समाधान प्रदान करती है और ग्राहकों को सेल्स और सर्विस की पेशकश में एक मानदंड स्थापित किया है। हमारा निरंतर प्रयास है कि हम अपने ग्राहकों के करीब पहुंचें और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सेल्स और सर्विस अनुभव प्रदान करें, जिसके लिए न्यू हॉलैंड को जाना जाता है। मध्य प्रदेश हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, और हम राज्य में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए आश्वस्त हैं।

[समाप्त]

न्यूहॉलैंड एग्रीकल्चर को ग्राहकों, नकदी फसल उत्पादकों, पशुपालक किसानों, ठेकेदारों, वाइनयार्ड (अंगूर के खेत) या जमीन की देखभाल के पेशे से जुड़े लोगों की जबरदस्त सफलता ने ऊंची पहचान दिलाई है। सभी कम्पनी के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सेवाओं की बड़ी रेंज पर पूरा भरोसा करते हैं। न्यूहॉलैंड की संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला में ट्रैक्टर से लेकर कटाई की मशीनें, सामान रखरखाव की मशीनें शामिल हैं और बड़ी बात यह भी कि कम्पनी कृषि कार्य की विशेषज्ञता के साथ हर किसान को जरूरत के हिसाब से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। न्यूहॉलैंड का बहुत प्रोफेशनल ग्लोबल डीलर नेटवर्क है और उत्कृष्टता को लेकर प्रतिबद्धता के साथ यह हर ग्राहक को बेजोड़ अनुभव का भरोसा देती है। न्यू हॉलैंड की अधिक जानकारी www.newholland.com पर देखें।

न्यूहॉलैंड एग्रीकल्चर सीएनएच इंडस्ट्रियल एन.वी. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) का एक ब्राण्ड है। यह कैपिटल गुड्स में ग्लोबल लीडर है जिसके पास औद्योगिक अनुभव, प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज और पूरी दुनिया में पहुंच है। सीएनएच इंडस्ट्रियल की अधिक जानकारी www.cnhindustrial.com पर ऑनलाइन देखें।

प्रेस संपर्क:

पुनीत जैन
न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर प्रेस रिलेशंस इंडिया
ईमेल: Puneet.jain@cnhind.com
Ph: 9205484518